



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoeffrolko@gmail.com

पत्र सं०-8बी/यू.पी./06/22/2020/एफ.सी.) 591

दिनांक: 09.03.2020

सेवा में,
विशेष सचिव (वन),
उत्तर प्रदेश शासन,
बापू भवन, लखनऊ।

(ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Others/21657/2016)

विषय: कार्योपरांत स्वीकृति (Ex. Post facto) के अंतर्गत जनपद बरेली में बरेली-शाहजहांपुर मार्ग एन0एच0-24 के किमी0 244.245 ग्राम नरियावल में काम्पीटेण्ट विल्डर्स एण्ड डवलपर्स द्वारा विकसित किए जा रहे इंटरनेशनल सिटी के सम्पर्क मार्ग हेतु 0.097035 हे० संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: विशेष सचिव(वन), उत्तर प्रदेश का पत्रांक-2581/81-2-2019-800(57)/2019, लखनऊ, दिनांक-13.02.2020.

महोदय,

उपरोक्त विषय पर विशेष सचिव(वन), उत्तर प्रदेश का पत्रांक-2581/81-2-2019-800(57)/2019, लखनऊ, दिनांक-13.02.2020 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा(2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति माँगी थी।

प्रकरण में विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार कार्योपरांत स्वीकृति (Ex. Post facto) के अंतर्गत जनपद बरेली में बरेली-शाहजहांपुर मार्ग एन0एच0-24 के किमी0 244.245 ग्राम नरियावल में काम्पीटेण्ट विल्डर्स एण्ड डवलपर्स द्वारा विकसित किए जा रहे इंटरनेशनल सिटी के सम्पर्क मार्ग हेतु 0.097035 हे० संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

1. Legal status of the forest land shall remain unchanged.
2. Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 0.19407 ha. degraded forest land (Compartment No./ Khasra No. Not provided, Village-Bhandaulia, Tehsil-Bareilly, District- Bareilly) at the cost of the User Agency. As far as practicable a mixture of local indigenous species will be planted and monoculture of a species has to be avoided.
3. The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme will be for plantation of 100 trees and may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.
4. The State Government shall charge the Net Present Value(NPV) for the 0.097035 ha. forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard.
5. Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.
6. Penal NPV to be imposed & collected as per the FCA guidelines ^{and} deposited to CAMPA fund.

7. The penalty for violation shall be calculated as per the guidelines dated 29.01.2018 and Penal NPV calculation has to be submitted.
8. All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through *e-portal* (<https://parivesh.nic.in/>).
9. The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.
10. The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.
11. Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.
12. Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt. 29/01/2018
13. The compliance report shall be uploaded on *e-portal* (<https://parivesh.nic.in/>).

भवदीया,

(प्राची गंगवार)

उप वन महानिरीक्षक {केन्द्रीय}

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी(वन संरक्षण), 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
2. प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, बरेली।
3. काम्प्यूटेन्ट विल्डर्स एण्ड डवलपर्स 268 मकनेर रोड, प्रेमनगर, बरेली।
4. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित/आदेश पत्रावली।

09.03.2020
(प्राची गंगवार)

उप वन महानिरीक्षक {केन्द्रीय}